

विद्याभवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

कक्षा - षष्ठ

दिनांक -25- 08- 2021

विषय -हिन्दी

विषय शिक्षक -पंकज कुमार

एन, सी, ई, आरटी, पर आधारित

सुप्रभात बच्चों आज वर्ण विचार के बारे में पुनः अध्ययन करेंगे।

वर्ण विचार

.1 वर्ण विचार क्या है ?

उत्तर - वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्ण विचार, वर्णमाला, स्वर - स्वर के भेद, व्यंजन - व्यंजन के भेद और अयोगवाह के बारे में पढ़ेंगे।

वर्ण विचार - वर्ण / अक्षर - भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाती है।

जैसे → अ, र, क्, म्, च् आदि।

.2 हिंदी वर्णमाला वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं ?

उत्तर → वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है।

→ हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं।

3 स्वर किसे कहते हैं ?

उत्तर - जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे स्वर कहलाते हैं।

. 3 हिंदी में स्वर कितने हैं?

उत्तर → स्वरों की संख्या 11 होती है। → “अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ”।

स्वर के भेद

ह्रस्व स्वर → जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं।

जैसे → अ, इ, उ, ऋ

दीर्घ स्वर → जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं।

जैसे → आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ।

प्लुत स्वर → जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, उन्हें 'प्लुत स्वर' कहते हैं।

→ वर्तमान समय में 'प्लुत' स्वर का प्रयोग केवल उच्चारण में किया जाता है।

जैसे → ओइम, रधियाsss

स्वरों की मात्राएँ

मात्रा → स्वरों के निर्धारित चिह्न होते हैं, जो व्यंजनों के साथ जुड़कर उनका स्वरूप बदल देते हैं, ये चिह्न मात्राएँ कहलाते हैं।

व्यंजन

जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती है। उन्हें व्यंजन कहते हैं।

जैसे - क = क् + अ

हिन्दी के व्यंजन वर्ण

हिन्दी व्यंजनों की संख्या 33 है ।

इन्हे निम्नलिखित वर्गों में बाँटा गया है :

1.) स्पर्श व्यंजन या वर्गीय : पाँच - पाँच व्यंजनों का एक - एक वर्ग है । वर्गों की संख्या पाँच है । इस तरह कण्ठ , तालु , मुर्द्धा , दाँत और ओठ से बोले जाने के कारण इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है । इन्हे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है । 'क्' से 'म्' तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं ।